

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011— पौष 2, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं